



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1601]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, दिसम्बर 27, 2007/पौष 6, 1929

No. 1601]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 27, 2007/PAUSA 6, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2007

सं. 69 (आर ई-2007)/2004—2009

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2007.

No. 69 (RE-2007)/2004—2009

का.आ. 2196(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2004—09 के पैरा 2.1 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा, निर्यात और आयात मदों के आई टी सी (एचएस) वर्गीकरण, 2004—2009 की अनुसूची-1 (आयातों) को निम्नानुसार संशोधित करती है:—

“परिष्करण के पश्चात् उपभोग के लिए राउण्ड-अप-रेडी सोयाबीन से व्युत्पन्न जी.एम. सोयाबीन तेल (क्रूड डी-गम्ड/परिष्कृत फार्म) के आयात के लिए, पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा स्थापित जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति (जीईएसी) ने ‘एक बारगी अनुमोदन’ प्रदान किया। अतः अधिसूचना संख्या 2 (आर ई-2006)/2004—2009 दिनांक 7-4-2006 द्वारा अधिसूचित अध्याय 1क (आयात नीति से संबंधित सामान्य टिप्पणी) की शर्त संख्या-18 अगले आदेशों तक उक्त सोयाबीन तेल के आयात पर लागू नहीं होगी।”

2. यह पूर्व अधिसूचना संख्या 54 (आर ई-2006)/2004—2009 दिनांक 13 मार्च, 2007 के क्रम में है।

3. इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/178/ए एम 03/पी सी-1ए]

आर. एस. गुजराल, विदेश व्यापार महानिदेशक
एवं पदेन अपर सचिव

S.O. 2196(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 read with paragraph 2.1 of the Foreign Trade Policy, 2004—2009, the Central Government hereby amends Schedule-I (Imports) of the ITC(HS) Classifications of Exports and Import Items, 2004—09 as under:—

“The Genetic Engineering Approval Committee (GEAC), set up by the Ministry of Environment & Forests has accorded ‘one time approval’ for import of GM Soyabean Oil (crude de-gummed/refined form) derived from Round-up-Ready Soyabean for the purpose of consumption after refining. Therefore, Condition No. 18 of Chapter 1A (General Notes Regarding Import Policy) notified *vide* Notification No. 2 (RE-2006)/2004—2009 dated 7-4-2006 will not apply to the import of said Soyabean Oil till further orders.”

2. This is in continuation to earlier Notification No. 54 (RE-2006)/2004—2009 dated 13th March, 2007.

3. This issues in public interest.

[F.No. 01/89/180/178/AM03/PC-1A]

R. S. GUJRAL, Director General of Foreign Trade
and ex-officio Addl. Secy.